



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 आषाढ़ 1946 (श10)

(सं0 पटना 548) पटना, मंगलवार, 25 जून 2024

सं0 3(सं0)/उ०स्था०(आरोप)—12/2022-3205

उद्योग विभाग

संकल्प

24 जून 2024

श्री नरेश दास, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक—सह—प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के विरुद्ध तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, जमुई का औचक निरीक्षण एवं मुख्यमंत्री उद्यमी योजनान्तर्गत जिले के लाभुकों के परियोजना स्थल का निरीक्षण के दौरान कुल 31 निरीक्षणों में से 19 स्थल निरीक्षण में अनियमितता के गंभीर आरोप एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत बैंकों को अग्रसारित आवेदन तथा स्वीकृति की उपलब्धि कम पाये जाने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय अधिसूचना संख्या—5872 दिनांक—16.12.2022 द्वारा श्री दास को निलंबित करते हुए विभागीय पत्रांक—5958 दिनांक 21.12.2022 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने हेतु निदेश दिया गया। परन्तु उनके द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं की गयी। पुनः विभागीय पत्रांक—169 दिनांक 09.01.2023 द्वारा दिनांक 20.01.2023 के पूर्व बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। परन्तु श्री दास द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रतिवेदित आरोप, श्री दास द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन अप्राप्त रहने के कारण अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा किया गया। समीक्षोपरांत श्री दास के विरुद्ध नियमानुसार वृहत् जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0—648 दिनांक—31.01.23 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

श्री नरेश दास, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक सम्प्रति सेवानिवृत्त, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के दिनांक—31.03.2023 को सेवानिवृत्ति की तिथि होने के कारण विभागीय संकल्प सं0—2131 दिनांक 31.03.2023 द्वारा निलम्बन मुक्त करते हुए विभागीय संकल्प सं0—2223 दिनांक 10.04.2023 द्वारा उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली—1950 के नियम—43(बी0) के तहत सम्प्रतिवर्तित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-3506 दिनांक-13.06.2023 द्वारा श्री दास के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक-3831 दिनांक-28.06.2023 द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री दास को उपलब्ध कराते हुए 15 दिन के अन्दर अपना अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उक्त निदेश का अनुपालन श्री दास द्वारा नहीं किया गया।

श्री दास पर लगाये गए आरोपों के संबंध में उनसे अप्राप्त बचाव का लिखित अभिकथन/अभ्यावेदन, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत श्री नरेश दास, सेवानिवृत्त परियोजना प्रबंधक-सह-प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई के विरुद्ध निलंबन अवधि में “जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई देयता नहीं देने तथा बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत उनके 20(बीस) प्रतिशत पेंशन की राशि 10 (दस) वर्षों के लिए अवरुद्ध करने का दंड” संसूचित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-6104 दिनांक 18.10.2023 द्वारा सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को श्री नरेश दास, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर सहमति/परामर्श हेतु पत्र प्रेषित की गयी।

तदआलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना की दिनांक 02.05.2024 को पूर्ण पीठ की वर्ष 2024 की 15वीं बैठक में श्री दास के विरुद्ध विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की गयी। जिसे उप सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-481 दिनांक 15.05.2024 द्वारा विभाग को सूचना दी गई।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री नरेश दास, तत्कालीन परियोजना प्रबंधक सह प्रभारी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध “जीवन यापन भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई देयता नहीं देने तथा बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम 43(बी) के प्रावधानों के तहत उनके 20(बीस) प्रतिशत पेंशन की राशि 10 (दस) वर्षों के लिए अवरुद्ध करने का दंड” संसूचित किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बृज किशोर चौधरी,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 548-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>